

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन में अर्थ मंथ का जशन मनाएं!

***पाकर्स क्लीनअप, सिटी के पहले अर्थ डे एन्वायरनमेंटल जशन और पेड़ लगाने के लिए रजिस्टर करें!***

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 अप्रैल, 2022) – ग्रीन सिटी (Green City) होने के तौर पर, ब्रैम्पटन, स्थिरता प्रयासों और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस अप्रैल, सिटी की कम्युनिटी पर्यावरण संबंधी पहलकदमियों में हिस्सा लेकर, अर्थ मंथ (Earth Month) का जशन मनाएं।

### पाकर्स क्लीनअप – 1 अप्रैल

ब्रैम्पटन का पाकर्स क्लीनअप (Parks Cleanup), 2022 के लिए जारी है। निवासी, 1 अप्रैल से 1 नवंबर तक अपनी पसंद के किसी पार्क में सफाई का नेतृत्व करने में वालंटियर बन सकते हैं। सिटी, मई में संगठित सफाई कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी, जिनमें प्रत्येक वार्ड में एक कार्यक्रम और साथ ही मुफ्त कम्युनिटी बारबेक्यू पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी और मुफ्त सामान के लिए अपने क्लीनअप को [www.brampton.ca/cleanup](http://www.brampton.ca/cleanup) पर रजिस्टर करें।

### एन्वायरनमेंटल जशन और गो ग्रीन अवॉर्ड्स समारोह – 23 अप्रैल

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के पहले एन्वायरनमेंटल जशन (Environmental Celebration) और [गो ग्रीन अवॉर्ड्स \(Grow Green Awards\)](#) से जुड़ें! शनिवार, 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, नोर्टन प्लेस पार्क (Norton Place Park) में, सिटी, परिवार-अनुकूलित गतिविधियों का आयोजन करेगी और कम्युनिटी में एन्वायरनमेंट लीडर्स को नए गो ग्रीन अवॉर्ड्स (Grow Green Awards) भेंट करेगी। विवरणों और कार्यक्रम में रजिस्टर करने के लिए, [यहां \(here\)](#) क्लिक करें।

### पेड़ लगाना – 24 अप्रैल

टोरोंटो रीजन कन्जर्वेशन अथॉरिटी (टी.आर.सी.ए.) (Toronto Region Conservation Authority) (TRCA) के साथ साझेदारी में, सिटी, रविवार, 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, गोर मेडोज कम्युनिटी सेंटर (Gore Meadows Community Centre) में, पेड़ लगाने का मुफ्त कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। विवरणों और रजिस्टर करने के लिए, [www.brampton.ca/parks](http://www.brampton.ca/parks) पर जाएं।

### **हवाले**

“ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है और स्थिरता और जलवायु संबंधी बदलाव के प्रयासों में लीडर है। बदलाव का हिस्सा बनें – इस महीने पार्क्स क्लीनअप से जुड़ें, पेड़ लगाएं और हमारे पहले अर्थ डे एन्वायरनमेंटल जशन और ग्रीन अवॉर्ड्स समारोह में शामिल हों।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन की पर्यावरण संबंधी पहलकदमियां, हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हमारे शहर में पैदा होने वाली ग्रीनहाउस गैस निकासियों को, 2050 तक 80 प्रतिशत तक कम करने के हमारे सफर में सहायता करने में योगदान देती हैं। मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि इस महीने और पूरा वर्ष, पहलकदमियों में हिस्सा लेकर हमारे शहर को साफ-सुथरा और हरा-भरा रखने में मदद करें।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग; रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हम अधिक हरे-भरे शहर के मिशन पर हैं, जैसा कि कम्युनिटी एनर्जी एमिशनस रिडक्शन प्लान (सी.ई.ई.आर.पी.) और टर्म ऑफ काउंसिल प्रायोरिटीज में दिया गया है। इस महीने, मैं निवासियों को पर्यावरण के लिए कुछ करने की चुनौती देता हूँ। निवासी, हमारे पार्कों की सफाई में मदद कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं और अर्थ डे के जशन में शामिल हो सकते हैं या अपनी पसंद की अन्य ग्रीन पहलकदमियों को पूरा कर सकते हैं।”

- डग विलैन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6; मेम्बर, एन्वायरनमेंट एडवाइजरी कमेटी; मेम्बर, सी.ई.ई.आर.पी. कम्युनिटी टास्क फोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, अपने जलवायु संबंधी बदलाव के लक्ष्यों को पूरा करने, स्थिरता में सुधार करने और हमारी कम्युनिटी में पर्यावरण संबंधी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अप्रैल पर्यावरण संबंधी पहलकदमियों में हिस्सा लें और अधिक जानकारी के लिए, [Brampton.ca](http://Brampton.ca) पर जाएं।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम सी.ए.ओ., सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), और [Instagram](https://instagram.com/brampton) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)